



भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India  
संपदा विभाग / Estate Department  
चंडीगढ़ / Chandigarh

## निविदा सूचना

### चंडीगढ़ में सैक्टर 30ए और 44बी स्थित बैंक के आवासीय परिसरों में IP आधारित सीसीटीवी प्रणाली की आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग एवं संबन्धित कार्य

चंडीगढ़ में सैक्टर 30ए और 44बी स्थित बैंक के आवासीय परिसरों में IP आधारित सीसीटीवी प्रणाली की आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग एवं संबन्धित कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ़, पात्र और इच्छुक फर्मों से निविदाएं आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागत ₹4.38 लाख मात्र (जी॰ एस॰ टी॰ सहित) है।

2. यह एक सीमित ऑफलाइन निविदा है। केवल वे फर्म जो संपदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ़ कार्यालय में Electrical Works (Trade No. 9) में श्रेणी II से श्रेणी V में (₹ 5 लाख या उससे अधिक तक के कार्यों के लिए) सूचीबद्ध हैं, निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। निविदा दस्तावेज़ वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।

3. निविदा के भाग- I में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें होंगी, जिसे निविदाकर्ताओं द्वारा अपनी मुहर के साथ सहमत, उचित रूप से भरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। निविदा के भाग- II में बैंक की मात्राओं की अनुसूची निर्धारित की गयी है और निविदाकर्ता द्वारा भाग I एवं भाग II अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में जमा की जाएगी।

4. पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली फर्मों को कार्य के आवंटन के लिए विचार किए जाने हेतु **12 जनवरी 2026 को पूर्वाह 11:00** बजे तक या उससे पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों को संपदा विभाग, तृतीय तल, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर-17, चंडीगढ़ में जमा किया जाना चाहिए।

5. निविदा के भाग- I एवं भाग II को **12 जनवरी 2026 को पूर्वाह 11:30** बजे संपदा विभाग, तृतीय तल, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर-17, चंडीगढ़ में खोला जायेगा। निविदा की समय-सारणी निम्न अनुसार है:

क	निविदा का नाम	चंडीगढ़ में सैक्टर 30ए और 44बी स्थित बैंक के आवासीय परिसरों में IP आधारित सीसीटीवी प्रणाली की आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग एवं संबन्धित कार्य
ख	निविदा प्रणाली	ऑफ-लाइन सीमित निविदा – निर्धारित प्रपत्र में निविदा अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में संपदा विभाग, तृतीय तल, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर-17, चंडीगढ़ में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ग	अनुमानित लागत	₹4.38 लाख (रूपए चार लाख अड़तीस हजार मात्र) (जी०एस०टी० सहित)
घ	निविदा दस्तावेज़ बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	12 दिसम्बर 2025
ङ	बयाना राशि	लागू नहीं
च	बोली पूर्व बैठक का समय एवं स्थान	02 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे स्थान: संपदा विभाग, तृतीय तल, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर-17, चंडीगढ़
छ	निविदा (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं मूल्य बोली) प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	12 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
झ	निविदा के भाग । अर्थात् तकनीकी-निविदा के भाग । एवं भाग ॥ (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं मूल्य बोली) को संपदा विभाग, तृतीय तल, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर-17, चंडीगढ़ में खोले जाने की तिथि एवं समय	12 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे
अ	निविदा फीस	शून्य

बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा में पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना किसी कारण बताए सभी निविदायों को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

यह नोटिस केवल सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और इस सीमित निविदा में बोली लगाने के लिए यह खुला आमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भागीदारी केवल आमंत्रण द्वारा है और चयनित खरीद इकाई के सूचीबद्ध ठेकेदारों तक सीमित है। अनचाहे प्रस्तावों को अनदेखा किया जा सकता है। हालांकि, जो ठेकेदार भविष्य में ऐसी निविदाओं में भाग लेना चाहते हैं, वे प्रक्रिया के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कृते/-  
क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़



भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India  
संपदा विभाग / Estate Department  
चंडीगढ़ / Chandigarh

### Tender Notice

#### **Supply, Installation, Testing & Commissioning (SITC) Of IP Based CCTV system at the Bank's residential colonies at sectors 30A & 44B in Chandigarh**

Reserve Bank of India, Chandigarh invites tender from eligible and willing firms for undertaking "*Supply, Installation, Testing & Commissioning (SITC) Of IP Based CCTV system at the Bank's residential colonies at sectors 30A & 44B in Chandigarh*". The estimated cost of work is **₹4.38 Lakh** (including GST) only.

2. It is a limited tender. Only those firms which are empanelled with Estate Department of Reserve Bank of India, Chandigarh in **Electrical Works (Trade No. 9)** under Category II to Category V (₹5 lakh or more) are eligible to take part in the tender process. The tender document is available on the Bank's website <https://www.rbi.org.in> for download from **December 12, 2025**.

3. Part-I of the tender will contain the Bank's standard technical and commercial conditions for the proposed work, which must be agreed to, properly filled and signed by the tenderers along with their seal. Part-II of the tender will contain Bank's schedule of quantities. Part I and Part II to be submitted in separate sealed cover to the Bank.

4. The firms fulfilling the eligibility criteria and desirous of being considered for award of the work should submit all the required documents mentioned in the tender document to Estate Department, 3rd floor, Reserve Bank of India, Central Vista, Sector-17, Chandigarh on or before **January 12, 2026 till 11:00 AM**.

5. Part-I and Part II of the tender will be opened on **January 12, 2026 at 11:30 AM** at Estate Department, 3rd floor, RBI Chandigarh. The timeline of the tender is as follow:

A	Tender Name	Supply, Installation, Testing & Commissioning (SITC) Of IP Based CCTV system at the Bank's residential colonies at sectors 30A & 44B in Chandigarh
B	Mode of Tender	<b>Off-line limited Tender-</b> Part I and Part II of the tender should be submitted in a <b>separate sealed envelope</b> to Estate Department, 3 <sup>rd</sup> Floor, RBI Chandigarh
C	Estimated cost	₹4.38 lakh (Rupees Four Lakh Thirty-Eight Thousand Only) (Including GST)

D	Date of availability of Tender Document for download on the Bank's website	December 12, 2025
E	Earnest Money Deposit	NIL
F	Date and Time of Pre-bid meeting	January 02, 2026 at 11:00 AM  Place: Estate Department, 3 <sup>rd</sup> floor, Reserve Bank of India, Central Vista, Sector-17, Chandigarh
G	Closing Date for submission of Techno-Commercial Bid & Price Bid	January 12, 2026 till 11:00 AM
H	Date & time of opening of Part I (Techno-Commercial Bid) and Part II (Price Bid)	January 12, 2026 at 11:30 AM
I	Transaction Fee	NIL

The Bank is not bound to accept the lowest tender and reserves the right to accept either in full or in part any tender. The Bank also reserves the right to reject all the tenders without assigning any reason thereof.

This notice is being published for information only and is not an open invitation to quote in this limited tender. Participation in this tender is by invitation only and is limited to the selected Procuring Entity's enlisted contractors. Unsolicited offers are liable to be ignored. However, contractors who desire to participate in such tenders in future may apply for enlistment with RBI as per procedure.

-SD-  
Regional Director  
Reserve Bank of India, Chandigarh